

Date: 12th February, 2020

**To
The Secretary
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street
Mumbai - 400001**

Company Code No: 532771

**To
The Secretary
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra East, Mumbai-400 051**

NSE Symbol: JHS

Dear Sir/Madam,

Subject: Submission of Copies of Published Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company

In Continuation of our letter dated February, 11, 2020, we enclose copies of the newspapers in which Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the third quarter and nine months ended December, 31, 2019 were published on February, 12, 2020 in Business Standard (English) and Naya India (Hindi).

This is for your information and record purpose.

Thanking you

Yours sincerely
For **JHS Svendgaard Laboratories Limited**


Chetan Batra
Company Secretary & Compliance Officer
MNo. A30039





JHS SVENDGAARD LABORATORIES LIMITED

Redg Office : Trilokpur Road, Kheri (Kala-amb), Tehsil-Nahan, Distt. Sirmour, Himachal Pradesh-173030, INDIA

CIN - L24230HP2004PLC027558

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2019

Particulars	(Rs in lacs)					
	Quarter Ended 31 st Dec 2019	Quarter Ended 30 th Sept 2019	Quarter Ended 31 st Dec 2018	Nine Months Ended 31 st Dec 2019	Nine Months Ended 31 st Dec 2018	Year Ended 31 st March 2019
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations	3,911.13	3,772.20	3,904.74	10,387.42	9,215.01	13,077.78
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional item and/or extraordinary items)	(3.86)	(98.09)	126.31	(203.13)	(49.10)	(204.50)
Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional and/or extraordinary items)	(3.86)	(98.09)	126.31	(203.13)	(49.10)	(204.50)
Net Profit/(Loss) for the period (after tax exceptional and/or extraordinary items)	38.40	(194.27)	58.27	(232.56)	(97.50)	(166.73)
Total comprehensive income for the period	40.16	(192.52)	58.69	(227.30)	(96.29)	(159.71)
Equity Share Capital (Face value of Rs 10 each)	6,090.05	6,090.05	6,090.05	6,090.05	6,090.05	6,090.05
Reserves (Excluding Revaluation Reserves)						11,594.48
Earnings per equity share (of Rs 10 each)						
(a) Basic (Rs)	0.11	(0.09)	0.10	(0.03)	(0.16)	(0.11)
(b) Diluted (Rs)	0.11	(0.09)	0.10	(0.03)	(0.16)	(0.11)

Key numbers of Standalone Financial Results

Particulars	Quarter Ended 31 st Dec 2019	Quarter Ended 30 th Sept 2019	Quarter Ended 31 st Dec 2018	Nine Months Ended 31 st Dec 2019	Nine Months Ended 31 st Dec 2018	Year Ended 31 st March 2019
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
	Total income from operations	3,682.13	3,576.51	3,728.46	9,718.34	8,896.48
Profit / (Loss) for the period (after extraordinary activities but before tax)	132.46	168.50	264.94	374.42	396.22	521.88
Profit / (Loss) for the period (after extraordinary activities and tax)	152.71	88.39	157.36	287.70	231.81	360.18
Total comprehensive income for the period	154.07	89.74	157.78	291.76	233.02	365.60

Notes: The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and nine months ended filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December 2019 are available at the website of the BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) and also on company website www.svendgaard.com.

For and behalf of
For JHS Svendgaard Laboratories Limited

Sd/-
Nikhil Nanda
Managing Director
DIN 00051501

Date : 11th February 2020
Place : New Delhi

1. Tot
2. Net
bel
Exh
3. Net
befi
Exh
4. Net
afte
Exh
5. Tot
per
for
Con
6. Equ
(Fa
7. Oth
8. Ear
(for
ope
1. B
2. D
* Oth
Note:
1. The
review
metho
used
2019.
Oblig
2. The
quarte
Regul
The fu
availa
websit

Place:
Date:

सार समाचार

पुजारी 11 किलो 876 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार

शिमला, वार्ता। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला की बंजार पुलिस ने 11 किलो 876 ग्राम चरस के साथ एक देवता के पुजारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सुनियोजित तरीके से छापेमारी की गई तथा स्थानीय देवता के पुजारी भेवा राम को गिरफ्तार किया है। कुल्लू पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि छापेमारी के दौरान पुलिस को इस टीम में 11 किलो 876 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस कथित पुजारी के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।

जालंधर में दीनदयाल उपाध्याय को दी गई श्रद्धांजलि

जालंधर, वार्ता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शहीदी दिवस के अवसर पर मंगलवार को पंडित दीनदयाल स्मृति मंच की ओर से शहीद समारोह का आयोजन कर श्रद्धांजलि दी गई। स्मृति मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनोष शर्मा ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक महान विचारक और भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक थे। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का भारत बनाने के लिए हर युवा निस्वार्थ भाव से मातृ भूमि की सेवा करने के लिए आगे आना होगा।

जीएनडीयू ने शुरू किया ट्रिस्ट गाइड पाठ्यक्रम

अमृतसर, वार्ता। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्रेंड किये ट्रिस्ट गाइड अब देशों विदेशों से आने वाले सेलानियों को पंजाब की तहज़ीब, इतिहास और संस्कृति से परिचित करवाएंगे। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के ट्रिस्ट एंड हास्पिटैलिटी विभाग के प्रमुख, डॉ मनदीप कोर ने बताया कि विद्यार्थियों को ट्रिस्टम इंडस्ट्री की बढ़ी जरूरत को ध्यान में रखते हुए विभाग में छह महीनों का यह पाठ्यक्रम शुरू करवाया जा रहा है।

प्रशासन/ राजनीति

पंजाब बनेगा चिकित्सा शिक्षा का केन्द्र: सिद्धू

जालंधर ■ वार्ता/डेस्क

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने मंगलवार को कहा कि अगले दो वर्षों में राज्य में चार मेडिकल कॉलेज शुरू होने के साथ ही पंजाब चिकित्सा शिक्षा का एक केंद्र बन जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने बिलगा शहर में एक चैरिटेबल एमएलटी फिजियोमेड सेंटर के उद्घाटन के बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोहाली, कपूरथला, होशियारपुर और गुरदासपुर जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों पर काम शुरू किया जा चुका है और अगले दो वर्षों में ये कॉलेज चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोहाली कॉलेज में कक्षाएं अगले कुछ महीनों में शुरू की जाएंगी और इस बीच, शेष तीन कॉलेजों की जमीनों का निपटान कर लिया गया है और परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में डॉक्टरों की कमी नहीं होगी। श्री सिद्धू ने कहा कि



मुख्यमंत्री केप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार यहां के लोगों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य ढांचा और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गरीब लोगों के लिए आयुष्मान भारत-सुरत सेवा योजना शुरू की है। मंत्री ने खुलासा किया कि राज्य के 470 अस्पतालों को पहले ही सूचीबद्ध कर दिया गया है और 1.05 लाख लोगों को इस योजना के तहत

इलाज मिला है। इसका अलावा अस्पतालों को भूतान भी एक महीने के भीतर मंजूरी दे दी गई है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही उप-केंद्रों को अपग्रेड करके 3000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसी) खोलने की प्रक्रिया में है, जहां प्रशिक्षित नर्सिंग अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में काम करेंगे और सभी को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेंगे। उन्होंने अनिवासी भारतीयों से राज्य में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक सक्रिय भागीदार बनने का भी आग्रह किया। पंजाब जल संसाधन प्रबंधन और विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष श्री जगबीर सिंह बराड़ के साथ मंत्री बिलगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए और वहां दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं की जांच की। उन्होंने मरीजों के साथ बातचीत भी की और उन्हें जल्द ही यहां एक्स-रे सुविधा शुरू करने का आश्वासन दिया।

कैथल में मेडीकल कालेज खोले जाने को मंजूरी

चंडीगढ़ ■ वार्ता/डेस्क

हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कैथल में एक मेडिकल कॉलेज खोले जाने को मंजूरी दिये जाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज खोले जाने से क्षेत्र के लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ बेहतर चिकित्सा सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। ढांडा ने मुख्यमंत्री से उनके निवास स्थल पर भेंट की तथा कैथल में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। ढांडा ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा हरियाणा के तीन जिलों नामतः यमुनानगर, कैथल तथा सिरसा में मेडिकल कॉलेज

खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का भी आभार व्यक्त किया है। प्रदेश के युवाओं को बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। ढांडा ने कहा कि केन्द्र सरकार के सहयोग से बनाए जा रहे इन मेडिकल कॉलेजों के निर्माण पर लगभग एक हजार करोड़ रुपए की राशि होगी और इस राशि में से प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर 325 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। इन तीन मेडिकल कॉलेजों के खुल जाने के बाद वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में खोले गए मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर तेरह हो जाएगी।

एडवा ने गागी, जामिया में हिंसा की आलोचना की

शिमला, वार्ता। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (एडवा) की हिमाचल प्रदेश इकाई ने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और गागी कॉलेज में छात्र-छात्राओं पर क्रमशः पुलिस और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थकों के हमलों व हिंसा की आज आलोचना की और इनके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की मांग की। समिति की अध्यक्ष डा रीना सिंह ने कहा कि सीएए-एनआरसी-एनपीआर के खिलाफ जामिया के छात्रों के शांतिपूर्ण ढंग से निकाले जा रहे संसद मार्च पर पुलिस ने दमन किया जिसमें 30 से ज्यादा छात्र घायल हुए।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा सीबीआई कोर्ट में पेश हुए

पंचकूला, संवादसूत्र। मानेसर लेंड स्केम घोटाले मामले में मंगलवार को पंचकूला स्थित सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। घोटाले के मुख्य आरोपी व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा समेत अन्य सभी 33 आरोपित भी कोर्ट में पेश हुए। पिछली सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा सहित सभी आरोपियों पर आरोपों को लेकर बहस पूरी हो चुकी है। केवल एक आरोपी के आरोप को लेकर बहस बाकी थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई अब 25 फरवरी को होगी। वकील एसपीएस परमार ने बताया कि सीबीआई ने मंगलवार को कोर्ट से मांग की कि वो आरोपी गौरव चौधरी पर और बहस करना चाहते हैं। जिसके चलते अब सीबीआई वकील अगली सुनवाई में आरोपी गौरव चौधरी पर चार्ज लगाए जाने को लेकर बहस करेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान भूपेन्द्र हुड्डा सहित मामले में अन्य आरोपी भी कोर्ट में पेश हुए। बचाव पक्ष वकील ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई अब 25 फरवरी को होगी।

सीबीआई की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा सहित 34 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। अब इस मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जिसमें हुड्डा के अलावा एमएल तारन, छतर सिंह, एसएस दिल्ली, पूर्व डीटीपी जसवंत सहित कई विलडरों के खिलाफ चार्जशीट में शामिल है। मानेसर जमीन घोटाले को लेकर सीबीआई ने हुड्डा सहित 34 के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी ने हुड्डा और अन्य के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया था।

मनसा देवी परिसर में वृद्धाश्रम के निर्माण की मंजूरी

चंडीगढ़, वार्ता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकूला के कैम्पस में वृद्धाश्रम के लिए 1114.78 लाख रुपए खर्च करने की मंजूरी दी है। खट्टर मनसा देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार वृद्धाश्रम के निर्माण का निर्णय माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की तीन साल पहले हुई बैठक में लिया गया था। इस वृद्धाश्रम के निर्माण का कार्य लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग की ओर से किया जायेगा। उन्होंने बताया कि वृद्धाश्रम 36 महीने में बन कर तैयार होगा जिसमें वृद्धों की सुविधा के लिए

कई जनसुविधाओं की मंजूरी दी गई है। वृद्धाश्रम भवन ग्राऊंड फ्लोर के अलावा चार मंजिला होगा। इसमें बॉथरूम समेत 19 डबल-आकुपेसी रूम, डब्ल्यूसी एवं किचनेट, टॉयलेट सहित दो क्यूबिकल और दो डोरमेटरी होंगी। दो लिफ्ट तथा दो जगह से सीढ़ियां होंगी। प्रवक्ता ने बताया कि ग्राऊंड फ्लोर में रिसेप्शन, ऑफिस, डॉक्टर-रूम, जनरल वार्ड, नर्सिंग स्टेशन, वेंटिंग लॉज, किचन, डाइनिंग-हॉल होंगे। इसके बाद प्रथम मंजिल पर तीन डबल-आकुपेसी रूम, डब्ल्यूसी एवं किचनेट, मेडिटेशन-रूम, रीडिंग-रूम, अटेंडेंट-रूम, बरामदा और दूसरी मंजिल पर पांच डबल-आकुपेसी रूम, डब्ल्यूसी एवं किचनेट, टॉयलेट सहित एक क्यूबिकल और एक डोरमेटरी व बरामदा होगा। तीसरी मंजिल पर पांच डबल-आकुपेसी रूम, डब्ल्यूसी एवं किचनेट सहित एक क्यूबिकल और एक डोरमेटरी और चौथी मंजिल पर छह डबल-आकुपेसी रूम, डब्ल्यूसी एवं किचनेट होगा।

जालंधर में बनाए गए पांच अल्ट्रा आधुनिक सिंथेटिक कोर्ट

जालंधर, वार्ता। पंजाब में जालंधर राज्य का पहला शहर बन गया है जिसने रायजादा हंसराज स्टेडियम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए पांच अल्ट्रा आधुनिक सिंथेटिक कोर्ट बनाए हैं। जिला उपायुक्त बरिंदर कुमार शर्मा और डिस्ट्रिक्ट बेडमिंटन एसोसिएशन की अंतिम कमेटी के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर श्री विश्वेश सारंगल ने मंगलवार को स्टेडियम का दौरा किया और नवनिर्मित कोर्ट का निरीक्षण किया। बेडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले सिंथेटिक कोर्ट को मंजूरी दी गई है और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा 15 लाख रुपये की लागत से स्थापित किया गया है। पूरी तरह से, दुनिया भर में सभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बेडमिंटन कार्यक्रम पर आयोजित किए जाते हैं, लेकिन नवोदित खिलाड़ियों के लिए शहर में कोई सिंथेटिक कोर्ट नहीं था, जिसके कारण उनके अभ्यास को बहुत नुकसान होता था। उपायुक्त ने इसे ऐतिहासिक मूल का पत्थर बनाते हुए कहा कि इससे नवोदित खिलाड़ियों के लिए बेडमिंटन के नए अवसर खुलेंगे और उन्हें खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बेहतर अवसर मिलेंगे, जिससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में खिलाड़ियों को बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है ताकि नवोदित खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जा सके।

राज्य: राजधानी/ आसपास

मार्च में मिलेगी जनता को 150 मिनो बसें: शर्मा

चंडीगढ़ ■ संवाद सूत्र हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचन्द शर्मा ने कहा कि परिवहन विभाग सीधे तौर पर जनसाधारण से जुड़ा हुआ है। विभाग पर प्रतिदिन प्रदेश के लाखों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की अहम जिम्मेदारी है। इसलिए विभाग में बसों या कर्मचारियों की कमी के कारण प्रदेशवासियों को किसी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। मूलचन्द शर्मा मंगलवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को विभाग के वाणिज्यिक और रेगुलेटरी विंग में रिक पड़े पदों को शीघ्र भरने के

निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के रेगुलेटरी विंग में कोस्टेबल और हेड कोस्टेबल के पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के लिए पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा जाए ताकि ऑवरलोडिड वाहनों की समुचित जांच के लिए अमला उपलब्ध हो सके। बैठक के दौरान बताया गया कि किलोमीटर स्कीम के तहत चलाई जाने वाली 190 बसों में से 80 बसें चालू हो चुकी हैं और शेष बसें जल्द ही सड़कों पर आ जाएंगी। इसके अलावा, 168 बसें मार्च, 2020 तक आ जाएंगी जिनमें 150 मिनो बसें और 18 सुपर लमजरी (वोल्वो) बसें शामिल हैं। इसके अलावा, 867 स्टेण्डर्ड डीजल ईजन बसों की खरीद हेतु भी फाइल

प्रशासकीय स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री को भेजी गई है। इस दौरान यह भी बताया गया कि सुरक्षित छात्रा परिवहन योजना के तहत विभिन्न रूटों पर 219 बसें चलाई जा रही हैं तथा आवश्यकता के आधार पर इनकी संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। बैठक में परिवहन विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी, निदेशक वीरेन्द्र दहिया, परिवहन आयुक्त डॉ. एस.एस.फुलिया, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त वीरेन्द्र सहरावत, संयुक्त परिवहन आयुक्त मीनाक्षी राज तथा संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) अशोक कुमार भी उपस्थित थे।

खास खबर : फोटो की जबानी



दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न पंचकूला में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया।

दिल्ली की नीतियों को पंजाब में भी लागू किया जाएगा: सन्नी

जालंधर ■ वार्ता/डेस्क आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली विधानसभा चुनावों में मिली भारी सफलता का जश्न जालंधर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर मनाया। पंजाब के दोआबा ज़ोन के प्रधान तरुणदीप सन्नी ने पार्टी की दिल्ली में हुई जीत पर लोगों को लड्डू बांटे। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों ने देशभर की जनता को संसदीय राजनीति के उद्देश्यों के प्रति सोचने के लिये विचार कर दिया है क्योंकि भारत में आर्थिक नवउदारवाद के बाद पिछले तीन दशकों से चुनावी

राजनीति महज ऊपर के 20 फीसदी लोगों के प्रति वफादार नजर आती आई गयी है और नीचे के 80 फीसदी लोगों को उनके रहमों कायम पर छोड़ दिया गया था लेकिन 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद 49 दिन की आप सरकार के ट्रेलर ने लोगों की उम्मीद को पुर्नजीवित किया था और जब 2015 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली चुनावों में ऐतिहासिक स्वीप किया तो लोगों को पूरी फ़्रिल्म देखने का मौका मिला। सन्नी ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा शिक्षा बजट स्वास्थ्य बजट, 20 हजार लीटर पानी फ्री, बिजली

फ्री, महिलाओं के लिए बसों में फ्री राइड, किसानों को 50 हजार रु हेक्टेयर के फसली मुवावजे, जरूरी सेवाओं के डोरस्टेप डिजिलीरी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति प्रतिबद्धता ने आम भारतीय को सोचने को विवश कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक विकास का मतलब महज बड़े सरमायेंदारों को नीतियों के मार्फत राहत देकर जनता के एक छोटे हिस्से को उसका लाभार्थी दिखाकर प्रचार मेनेजमेंट से उसका ढिढ़ोरा पीटना भर रहा है परंतु केजरीवाल सरकार ने अपनी नीतियों से उस जनता का ख्याल रखा है जिसे दायम

दर्ज का नागरिक माना जाता है और उसके बच्चों की शिक्षा के लिये सरकारी स्कूलों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उसके परिजनों के स्वास्थ्य के लिये महंगे निजी हॉस्पिटल में इलाज न कराने की क्षमता को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में चाक-चौबंद व्यवस्था के मार्फत उसका ख्याल रखा है। सन्नी ने कहा कि पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आप कार्यकर्ताओं ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है तथा राज्य में आम की सरकार बनने पर दिल्ली सरकार की नीतियों को पंजाब में भी लागू किया जाएगा।

तीरंदाजी स्पर्धा काजा में 14 से 16 फरवरी तक

केलांग, वार्ता। हिमाचल प्रदेश में लाहुल स्पीति जिला प्रशासन ने दाहंग मेले के शुभ अवसर पर काजा में तीरंदाजी स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। यह स्पर्धा 14 से 16 फरवरी तक चलेगी जो महिला और पुरुष वर्ग में आयोजित हो रही है। प्रशासन पहली बार तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। प्रतियोगिता पुलिस थाना खेल मैदान में आयोजित होगी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ज्ञान सागर नेगी ने आज यहां बताया कि लाहुल स्पीति में तीरंदाजी कई वर्षों से संस्कृति का हिस्सा रही है। यहां से पहले भी राष्ट्रीय तरफ से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व के खिलाड़ी कर चुके हैं। यहां तक कि ओलंपिक में भी स्पीति के रहने वाले खिलाड़ी प्रतिनिधित्व किया था। लेकिन जैसे-जैसे टीवी और अन्य मनोरंजन के साधन स्पीति में पांव पसारने लगे तो लोग अपने पारंपरिक खेलों से धीरे-धीरे दूर होने लगे हैं।

राज्यपाल ने किया 58 लोगों को अलंकृत

शिमला, वार्ता। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारा दत्तात्रेय ने 'अलंकरण समारोह' में पुलिस, सुधार सेवा, अग्निशमन सेवा तथा गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा पदकों के 58 विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर भी उपस्थित थे। सम्मान समारोह का आयोजन राजभवन में किया गया। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित व्यक्तियों को बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह सम्मान हम सब के लिए गौरव की बात है क्योंकि, उनकी उत्कृष्ट सेवाएं समाज के लिए उदाहरण हैं और अन्यों को भी प्रेरणा देती हैं। राज्य के अंदर शांति बनाने का जिम्मा पुलिस का है और यह जिम्मेदारी पुलिस बेहतर तरीके से निभा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे के खिलाफ पुलिस के अधिकारी व जवान मजबूती से काम कर रहे हैं।

श्रीमद् देवी भागवत कथा का शुभारंभ

पंचकूला, संवादसूत्र। श्री वनखंडी दुर्गा मंदिर अमरावती एनक्लेव पंचकूला की 17वीं वर्षगांठ के अवसर पर मंदिर परिसर में पांच दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कथा के प्रथम दिवस का शुभारंभ अमरावती एनक्लेव के डायरेक्टर हरगोविंद गोयल ने माँ की पावन ज्योति को प्रज्वलित कर के किया। प्रथम दिवस कथा को वांचने हुए दिव्य 'यंति' जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक आशुतोष महाराज की शिष्या कथाव्यास साध्वी विवेका भारती जी ने अपनी ओजस्वी वाणी से माँ की महिमा को भक्तों के सन्मुख रखा। साध्वी ने कहा यूं तो विश्व भर में विभिन्न रूपों में शक्ति की उपासना की जाती है। किन्तु उनमें से भारत ही ऐसा देश है जहाँ उसको माँ कहकर पुकारा जाता है।

SALE NOTICE

“Available for Sale Vehicle- One unit TATA 3718,- Reg. No – HR-58-B-1042, Model – 2016, and One unit LEYLAND 3718, Reg. No. HR-58-B-3742, Model 2017.”

For details Contact:- SUNDARAM FINANCE LIMITED, SCO-95, Second Floor, Commercial Complex, Sector 17, HUDA, Jagadhari By Pass Road, Jagadhari, YAMUNANAGAR – 135001 B.M. 01732-234379/224172, 9812001947

JHS SVENDGAARD LABORATORIES LIMITED						
Redg Office : Trikpur Road, Kheri (Kala-amb), Tehsil-Nahan, Distt. Sirmour, Himachal Pradesh-173030, INDIA CIN - L24220HP2004PLC027558						
Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended 31 st December, 2019						
Particulars	Quarter Ended 31 st Dec 2019	Quarter Ended 30 th Sept 2019	Quarter Ended 31 st Dec 2018	Nine Months Ended 31 st Dec 2019	Nine Months Ended 31 st Dec 2018	Year Ended 31 st March 2019
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations	3,911.13	3,772.20	3,904.74	10,387.42	9,215.01	13,077.78
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional item and/or extraordinary items)	(3.86)	(98.09)	126.31	(203.13)	(49.10)	(204.50)
Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional and/or extraordinary items)	(3.86)	(98.09)	126.31	(203.13)	(49.10)	(204.50)
Net Profit/(Loss) for the period (after tax exceptional and/or extraordinary items)	38.40	(194.27)	58.27	(232.58)	(97.50)	(166.73)
Total comprehensive income for the period	40.16	(192.52)	58.69	(227.30)	(96.29)	(159.71)
Equity Share Capital (Face value of Rs 10 each)	6,090.05	6,090.05	6,090.05	6,090.05	6,090.05	6,090.05
Reserves (Excluding Revaluation Reserves)						11,594.48
Earnings per equity share(of Rs 10 each)						
(a) Basic (Rs)	0.11	(0.09)	0.10	(0.03)	(0.16)	(0.11)
(b) Diluted (Rs)	0.11	(0.09)	0.10	(0.03)	(0.16)	(0.11)
Key numbers of Standalone Financial Results						
Particulars	Quarter Ended 31 st Dec 2019	Quarter Ended 30 th Sept 2019	Quarter Ended 31 st Dec 2018	Nine Months Ended 31 st Dec 2019	Nine Months Ended 31 st Dec 2018	Year Ended 31 st March 2019
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations	3,682.13	3,576.51	3,728.46	9,718.34	8,896.48	12,543.67
Profit / (Loss) for the period (after extraordinary activities but before tax)	132.46	168.50	264.94	374.42	396.22	521.88
Profit / (Loss) for the period (after extraordinary activities and tax)	152.71	88.39	157.36	287.70	231.81	360.16
Total comprehensive income for the period	154.07	89.74	157.78	291.76	233.02	365.60

Notes: The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and nine months ended filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December 2019 are available at the website of the BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) and also on company website www.svendgaard.com.

For and behalf of JHS Svendgaard Laboratories Limited
Nikhil Nanda
Managing Director
DIN 0051501

Date : 11th February 2020
Place : New Delhi